

#### MISHKA EXIM LIMITED

F-14, First Floor, Cross River Mall, CBD Ground, Shahdara, Delhi -110032 CIN: L51909DL2014PLC270810 Email id:mishkaexim@gmail.com Contact No: 011 42111981

Date: 04th September, 2021

Listing Department BSE Limited Phiroze jeejeebhoy towers Dalal Street Mumbai-400001

Dear Sir/ Ma'am,

Scrip code: 539220

Sub: Newspaper Advertisement of 7th Annual General Meeting

In terms of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements ) Regulations, 2015 , please find attached herewith newspaper cuttings of the advertisement (Jansatta Hindi and Financial Express English ) in relation to the  $7^{th}$  Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday,  $30^{th}$  September, 2021 and the same is also being displayed on the website of the Company i.e, mishkaexim.com.

Kindly take the same on record.

Thanking You

Yours Faithfully,

For Mishka Exim Limited

Rajneesh Gupta Managing Director

FINANCIAL EXPRESS

#### ARCEE INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 7th K.M. Barwala Road, Talwandi Rana, Hisar - 125 001 (Haryana) Email: arceeind@rediffmail.com; Tel.: 98120-40111, 98120-40222 CIN: L29120HR1992PLC031681

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

lotice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, 30th September 2021 at 9:00 a.m. at the registered office of the Company at 7th K.M. Barwala Road, Talwandi Rana, Hisar (Haryana) to transact the Ordinary Business as set out in the notice of the 29th AGM. The Company has completed the dispatch of the Notice of AGM and the Annual Report fo

2020-21. Electronic copies have been sent to all the members whose email ID are registered with the Company/Depository Participants and physical copies have been sent to the members at their registered address whose email ids are not registered with the Company/Depository Participants This communication and the Notice along with the Annual Report for 2020-21 are available at the following websites www.arceeindustries.in and http://evoting.nsdl.com. The communication relating o remote e-voting, inter-alia, containing user ID and password have been dispatched to the As per Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorized agency to provide remote e-voting facility. The details of the remote e-voting are as under-

- Date and time of commencement of remote e-voting: 27th September, 2021 (9:00 a.m.)
- Date and time of end of remote e-voting: 29th September, 2021 (5:00 p.m.) The remote e-voting shall not be allowed beyond 29th September, 2021 (5:00 p.m.)
- A person, whose name appears in the register of members/ beneficial owners as on the cutoff date i.e., 23rd September, 2021 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting A person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting
- and holding shares as on the cut-off date, may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the member is already registered with NSDL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting A facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and members
- attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend
- the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. In case of any queries/ grievances relating to remote e-voting, the members/ beneficial owners
- may contact at the following address: Ms Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, Phone No. 022 2499 4545 or at Toll free no. 1800-222-990; e-mail- evoting@nsdl.co.in. Members

may also write to the Company at arceeind@rediffmail.com or Company's registered office. lotice is also hereby given that pursuant to Section 91 of Companies Act. 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 20th September, 2021 to Thursday 30th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

dated January 15, 2021 issued by the Securities & Exchange Board of India.

registration of email id for obtaining Annual Report for the Financial Year 2020-21.

Members can join and participate in the 28" AGM through VC/OAVM facility only

For Arcee Industries Limited (Shruti Gupta) Whole Time Director

**Integrated Capital Services Limited** 

CIN: L74899DL1993PLC051981 Regd. Office: 606, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi - 110 001

PUBLIC NOTICE OF CONVENING

28<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM

Notice is hereby given that in view of the COVID-19 pandemic, Twenty-Eight (28") Annual General Meeting ("AGM") of the members

of Integrated Capital Services Limited(" Company") will be held on Thursday, 30" day of September, 2021 at 10:00 am (IST) through

Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the

Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the Securities Exchange Board of India ("SEBI") ("Listing Obligations and

Disclosures Requirements) Regulation 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No.

17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 15, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs

("MCA Circulars") and Circular No SEBI/HO/CFDF/CMD/1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11

In Compliance with the MCA & SEBI Circular(s), the Notice setting out the business to be transacted at the AGM together with the

Annual Report of the Company for the year 2020-21 will be sent electronically to those members whose email address is registered

with the Company/ Depository Participant(s). No physical copies of the Notice and the Annual Report would be sent to any member.

The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website at www.raas.co.in and on the website

In case, you have not registered your email address with the Company/Depository Participant, please follow below instructions for

The instructions for joining the 28" AGM through VC/QAVM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting

vote through the e-voting system of NSDL during the 28" AGM shall be provided in the Notice of 28" AGM. The notice shall also contain

the instructions with regard to login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not

registered their email address either with the Company or their respective Depository Participant. Members participating through the

In case of any query/difficulty, a member may send an email to the RTA at delhillinkintime.co.in or Company at contact@raas.co.in.

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD

Regd. Office: D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave- I, New Delhi-110048

**TEL.**: 91-11-49025758 **FAX**: 91-11-41633812,

E-mail ID: info@jagsonpal.co.in Website: www.jagsonpal.co.in; CIN: L65929DL1991PLC043182

INTIMATION REGARDING COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE OF

30<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Jagsonpal Finance & Leasing Limited will be held on Sunday,

September 26, 2021 at 11:30 a.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the ordinary businesses as

stated in the Notice convening the AGM. As per the various Circular issued by MCA and SEBI, the Notice of the AGM together with the Annual Report of the

Company for the Financial Year 2020-21 has been sent to the Members of the Company by e-mail to their registered e-mail addresses. The Company has

The Members, who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to register their e-mail addresses with their concerned Depository

(www.jagsonpal.co.in). Notice of AGM is also available on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Members are also informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013("the Act") read with the relevant rules made there under, as amended

from time to time, along with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the

aforesaid Circulars, the Company is providing remote e-voting (prior to the AGM) and e-voting during AGM to its members to cast their votes electronically on

the resolutions to be passed at the 30thAGM. The Members are further informed that the cut-off date for the purpose of ascertaining the members eligible for

e-voting facility has been fixed as Sunday, September 19, 2021. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial

The Members are requested to note that remote e-voting process shall commence on Thursday, September 23, 2021 at 9:00 a.m. and will remain open upto

Saturday, September 25, 2021 till 5:00 p.m. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by a

Member, he / she / it shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their

voting rights electronically during AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be

The Company has appointed Mr. Prasant Kumar Sarkar (Membership No. FCS No. 6996, C.P. No. 6534), Practising Company Secretary, as the scrutinizer to

The remote e-voting facility is available to the Members to cast their votes at the e-voting website of NSDL: www.evoting.nsdl.com or the Member may refer

Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders, available at the download section of www.evoting.nsdl.com

Any query or grievance in relation to e-voting may be addressed to Mr. Sumit Kumar Ghosh, Company Secretary, e-mail to jagsonpalfinance@gmail.com.

Any person who becomes a Member after sending the Notice and Annual Report through e-mail but who holds shares as on cut-off date can attend the AGM

through VC / OAVM. Such Member can exercise his voting right through remote e-voting or e-voting during AGM and send a requisition for a copy of the Annual

Report and Notice convening the AGM through e-mail communication to RTA at info@masserv.com with a copy marked to the Company at

jagsonpalfinance@gmail.com along with his / her / its relevant particulars i.e. DP ID& Client ID / Folio No. to obtain User Id and Password for e-voting.

Since the 30th AGM will be held pursuant to the aforesaid Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly,

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and

the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 20, 2021 to Sunday, September 26, 2021 (both days inclusive) for

owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during AGM.

The detailed procedure/instructions for remote e-voting, attending AGM and e-voting during AGM are contained in the Notice of 30th AGM

If shareholder is individual shareholder and hold shares in demat mode he/she can generate password as explain in e-voting instruction

completed the mailing of Notice convening the AGM along with the aforesaid Annual Report on September 2, 2021

VC/OAVM facility shall be counted for purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members holding shares in physical mode are requested to register/update their email addresses by

writing to Link In Time India Private Limited ("the RTA") at Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2, C-1

Block, LSC Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 or email at delhilinkintime.co.in along with

the copy of the signed request letter mentioning the name, folio number and address of the Member, self-

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses

by following the process mentioned above for- Physical Holding and send 16 digit DPID & Client ID in

place of Folio No along with scanned copy of self attested Client Master copy or consolidated Demat

For Integrated Capital Services Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Lakshay Prakash

of the Stock Exchange, i.e BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

attested copy of Aadhar and copy of share certificate (front and back)

DIN - 01742368

Place: Hisar (Haryana) Date: September 3, 2021

BTG Global Advisory

Physical Holding

Demat Holding

Dated: 04" September, 2021

Place : New Delhi.

shares held in physical form).

the purpose of 30th AGM.

Place: New Delhi

scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

the facility for appointment of proxies by the Members will not be available.

Date of Demand / Possession Notice

Date: 04.09.2021; Place: Raebareli

financia exp.epapr.in

or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

Address: D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave – I, New Delhi - 110048, Contact No.: 011-41633812 / 49025758.

The Federal Bank Ltd.

M-17, Connaught Circus Outer Circle,

Your Perfect Banking Partner New Delhi - 110001

Regd. Office. Alwaye, Kerala

NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD lotice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branch of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularised so far in spite of repeated notices, will be put for

sale in the branch on or after 18/09/2021 as shown below: BRANCH/VENUE SI, NAME & ACCOUNT NUMBER The Federal Bank Ltd. . TARAK CHAKRABORTY : 11056100061133 B.O.: M17 Connaught

Circus Outer Circle:

2. TARAK CHAKRABORTY : 11056100060382 New Delhi: 110001 Place: New Delhi Date: 04.09.2021 Branch Manager, (The Federal Bank Ltd.)

GENERIC ENGINEERING CONSTRUCTION AND PROJECTS LIMITED Regd Off.: 201 & 202, Fitwell House, 2nd Floor, Opp Home-Town,

LBS Road, Vikhroli (West), Mumbai - 400083 CIN: L45100MH1994PLC082540

Phone No: 022-25780272 27th ANNUAL GENERAL MEETING -ADDITIONAL INFORMATION INTIMATION

Website: www.gecpl.com, Email ld: geninfo@gecpl.com

Shareholders may note that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held Wednesday, this September 29, 2021 at 11.30 A.M. (LS.T) through Video Conferencing ("VC") Or Other Audio Visual Means ("OAVM"). The AGM is being held in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting.

In compliance with above circulars, electronic copies of the Notice of the AGN and Annual Report for Financial Year 2020-21 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant Depositories through their Depository Participant(s). Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Companies Registrar and Share Transfer Agent i.e. Satellite Corporate Services Pvt. Ltd. at info@satellitecorporate.com along with Self-Attested copy of PAN Card. The notice of the 27th AGM and Annual Report for Financial Year 2020-21 will also be made available on Company's website at www.gecpl.com, stock Exchange website and also on the Satellite Corporate Services Pvt. Ltd. website.

The Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered email addresses will be provided in the notice to the shareholders.

The 27th AGM notice will be sent to the Shareholders in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in the due course.

FOR GENERIC ENGINEERING CONSTRUCTION AND PROJECTS LIMITED Sd/

Place: Mumbai

Date: September 3, 2021

Company Secretary

Ami Shah

# GARG ACRYLICS LIMITED

Regd. Office: A-50/1, Wazirpur, Industrial Area, Delhi-52

#### NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING "AGM" REMOTE E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Garg Acrylics Limited will be held on Tuesday, the 28th Day of September, 2021 at 03:00 p.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the companies Act, 2013 read with circulars, issued by Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, and SEBI Circular dated May 12, 2020. January 15 2021 to transact the Business, as set out in the Notice of AGM. In compliance to the above circulars, Notice of 37th AGM along with Annual Report

has been sent in electronic mode to members whose e-mail ids are registered with the Company or the Depository Participant(s). No physical copies of Annual Report & Notice of AGM will be sent to any members of company. Members can join and participate in the 37th AGM through VC/OAVM. The above documents, along with this notice, would also be available on the website of the Company at www.gargltd.com and on the website of stock exchange www.msei.in and also on www.evotingindia.com. The Company has provided electronic voting facility for transacting all the business

items as mentioned in the Notice of 37th AGM through e-voting facility on the platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The remote e-voting facility shall commence on Saturday, 25th day of September, 2021 at 10:00 a.m and will end on Monday, 27th September, 2021 at 5:00 p.m. No e-voting shall be allowed beyond the said date and Only the Members, whose name appear in the Register of Members/Beneficia

owners as on the cut-off date i.e. 21st September, 2021 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.

Members, who have not registered their e-mail address with the Company/Depository, Please registered your e-mail ID far obtaining Annual Report Notice of AGM and login details for e-voting.

 For Physical shareholders- Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company/RTA email id. For Demat shareholders - Please provide Demat account details (CDSL-16 digit

beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card). AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to Company/RTA email id. The result of voting on the resolutions shall be declared within 48 hours of conclusion of the AGM. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on www.gargltd.com, www.evotingindia.com and communicated to the Stock

Pursuant to the provisions of Section 91 of Companies Act 2013 and other applicable provisions, the Registers of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday September 21, 2021 to Tuesday 28, 2021 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

> By Order of the Board For Garg Acrylics Limited

> > **MISHKA EXIM LIMITED**

CIN L51909DL2014PLC270810

Regd. Office: F-14, First Floor, Cross River Mall, CBD Ground, Shahdara

Delhi-110032, email: mishkaexim@gmail.com

NOTICE OF 7TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING

AND BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the 7th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held

on Thursday the 30th day of September, 2021 at 11:00 A.M at Le Chef, 3rd Floor, Cross River

Mall, CBD Ground Shahdara, Delhi-110032 to transact the business as set out in the Notice.

The Notice of AGM. Annual Report. Attendance Slip and Proxy form has been sent in electronic

mode to members who's E-Mail Ids registered with the Company or the Depository's Participants

unless the Members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copies

have been sent to those members who have not registered their E-Mail IDs with the Company

or Depository's Participants. The copy of the Annual Report is also being placed on the

Notice is given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and read with the clause

42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the

Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th

The Company pleased to provide its members, the facility to cast their vote by electronic

means (e-Voting) on all the resolution set forth in the Notice of the 7th AGM. The details

a) Date of Completion of dispatch of Notice on Saturday, 4th day of September, 2021.

b) The voting period begins on  $27^{\text{th}}$  September 2021 from 09:00 a.m. and ends on  $29^{\text{th}}$ 

September 2021 at 05:00 p.m. During this period shareholders' of the Company, holding

shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date)

In case any member has any queries or issues regarding e- Voting, please contact

helpdesk.evoting@cdslindia.com. For any difficulties, kindly contact the secretarial

**AVON MERCANTILE LIMITED** 

CIN: L17118UP1985PLC026582

Regd. Office: S Global Knowledge Park, 19A & 19B, Sector-125,

NOIDA-201301 (U.P.)

E-Mail: avonsecretarial@gmail.com, Web: www.avonmercantile.co.in

INTIMATION REGARDING COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE OF

36TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of

Avon Mercantile Limited will be held on Sunday, September 26, 2021 at 01:00 p.m.

through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to

transact the business as stated in the Notice convening the AGM. As per the various

Circular issued by MCA and SEBI, the Notice of the AGM together with the Annual Report

of the Company for the Financial Year 2020-21 has been sent to the Members of the

Company by e-mail to their registered e-mail addresses. The Company has completed

the mailing of Notice convening the AGM alongwith the aforesaid Annual Report on

The Members, who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to

register their e-mail addresses with their concerned Depository Participant (in respect of

shares held in Demat form) or with Mas Services Limited, Registrar & Share Transfer

Members are hereby informed that the notice of the 36th AGM and the Annual Report of

the Company are also available on the Company's website (www.avonmercantile.co.in)

Notice of AGM is also available on the e-voting website of National Securities Depository

Members are also informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013

("the Act") read with the relevant rules made thereunder, as amended from time to time,

along with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the aforesaid Circulars, the Company is

providing remote e-voting (prior to the AGM) and e-voting during AGM to its members to

The Members are further informed that the cut-off date for the purpose of ascertaining the

members eligible for e-voting facility has been fixed as Sunday, September 19, 2021.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of

eneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be

The Members are requested to note that remote e-voting process shall commence on

Thursday, September 23, 2021 at 9:00 a.m. and will remain open upto Saturday,

September 25, 2021 till 5:00 p.m. Thereafter, the remote e-voting module shall be

disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she / it shall not

be allowed to change it subsequently. The Members who have not cast their vote through

remote e-voting can exercise their voting rights electronically during AGM. The Members

who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM,

The Company has appointed Mr. Amit Jain (Membership No. and C.P. No.509349),

Chartered Accountant, as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and

The detailed procedure/ instructions for remote e-voting, attending AGM and e-voting

The remote e-voting facility is available to the Members to cast their votes at the

e-voting website of NSDL: www.evoting.nsdl.com or the Member may refer Frequently

Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders,

available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.:

Any query or grievance in relation to e-voting may be addressed to Ms. Disha Soni,

Company Secretary, e-mail address: avonsecretarial@gmail.com, Contact No.:

Any person who becomes a Member after sending the Notice and Annual Report through

e-mail but who holds shares as on cut-off date can attend the AGM through VC / OAVM

Such Member can exercise his voting right through remote e-voting or e-voting during

AGM and send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice convening the

AGM through e-mail communication to RTA at investor@masserv.com with a copy

marked to the Company at avonsecretarial@gmail.com alongwith his / her / its relevant

particulars i.e. DP ID & Client ID / Folio No. to obtain User Id and Password for e-voting.

If shareholder is individual shareholder and hold shares in demat mode he/she can

Since the 36th AGM will be held pursuant to the aforesaid Circulars through VC / OAVM.

physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and

Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share

Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 20, 2021 to

Sunday, September 26, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 36th AGM.

1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

cast their votes electronically on the resolutions to be passed at the 36<sup>th</sup> AGM.

entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during AGM.

but shall not be entitled to cast their vote again during AGM

during AGM are contained in the Notice convening 36<sup>th</sup> AGM.

Agent (RTA) of the Company (in respect of shares held in physical form).

pursuant to the provisions of the Act and the said rules are given here under:

i.e. 23rd September 2021 may cast their vote electronically.

Department by letter or through email: mishkaexim@gmail.com.

Date: 03.09.2021

September 3, 2021.

Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Place : Delhi

Place :- Ludhiana Date :- 3rd September, 2021

Exchange where the Company's shares are listed

Priya Rani Company Secretary

website of the Company i.e. mishkaexim.com.

September 2021 to 30<sup>th</sup> September, 2021 (both days inclusive).

# Indiabulls Housing Fin to raise up to ₹1,000 cr via NCDs

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, September 3

HOUSING INDIABULLS **FINANCE** on Friday said it is targeting to raise up to ₹1,000 crore through the public non-convertible debenture (NCD) issue next week, the first such offering in three years. The company is planning to raise money from both secure and unsecured debt, and the base issue size is ₹200 crore with an option to retain another ₹800 crore of

subscriptions. The public issue is of secured/and or unsecured. redeemable, non-convertible debentures of face value of ₹1,000 each, Indiabulls Housing said in a statement. The tranche I issue will open on September 6 and close on September 20, 2021.

"The tranche I issue has a base issue size of Rs 200 crore with a green shoe option of up to ₹800 crore, aggregating up to ₹1,000 crore," it said.

It is offering coupons ranging from 8.05% to 9.75%, depending on the nature of the instrument and the type of investor. The tenure of the NCDs ranges from 24 months to 87

For Mishka Exim Limited

Rajneesh Gupta

**Managing Director** 

Gagan Banga

months, and the paper will be listed on the bourses.

"At least 75% of the funds raised through this tranche I issue will be used for the purpose of onward lending financing, and for repayment of interest and principal of existing borrowings of the company," it said. The balance is proposed to be utilised for general corporate purposes, subject to such utilisation not exceeding 25% of the amount raised.

Vice chairman and MD Gagan Banga said the setbacks of the past are behind it, and the company is more confident of the asset quality being stable now. He said the company had over ₹79,000 crore of AUMs as of June, with 65% of them linked to the housing sector.

## LIC picks up nearly 4% stake in BoI

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, September 3

**BANK OF INDIA** on Friday said LIC has picked up nearly 4% equity shares of the bank through an open market transaction a day earlier. LIC has picked up nearly 3.9% (15,90,07,791 shares) of the bank through open market acquisition on September 2, 2021, Bank of India said in a

regulatory filing. Before the latest acquisition of shares in the bank, LIC held over a 3.17% stake in the state-owned bank. LIC's stake in Bank of India has now increased to 7.05%, equivalent

# Vijaya Diagnostic IPO subscribed

4.54 times

to 28,92,87,324 shares.

THE INITIAL PUBLIC offering of Vijaya Diagnostic Centre was subscribed 4.54 times on the closing day of the subscription on Friday. It received bids for 11,36,44,020 shares against 2,50,26,646 shares on

offer, according to NSE data. The category reserved for qualified institutional buyers (QIBs) was subscribed 13.07 non-institutional investors 1.32 times and retail individual investors 1.09 times.

The ₹1,895-crore initial public offerwas entirely an offer for sale of up to 3,56,88,064 equity shares.

### **Ami Organics** IPO subscribed 64.54 times

THE INITIAL PUBLIC offering of specialty chemicals maker Ami Organics was subscribed 64.54 times on the closing day of subscription on Friday.

The ₹569.63-crore IPO received bids for 42,22,36,296 shares against 65,42,342

shares on offer, as per data available with the NSE. The qualified institutional

buyers (QIBs) category was subscribed 86.64 times, noninstitutional investors 154.81 times and retail individual investors 13.36 times. —PTI

Federal Bank launches credit card in

partnership with Visa **FEDERAL BANK ON Friday** launched its credit card in

association with Visa. The bank is also on course to launch variants of the Rupay credit card in association with the National Payments Corporation of India (NPCI). The card, which comes in three variants, is packaged with a range of offers, and is currently being offered to existing customers of the bank.

For AVON MERCANTILE LIMITED (Disha Soni)

By order of the Board of Directors

## LIMITED

Regd. Office: Unit Nos. 2050 to 2052, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi-110006 CIN-L74899DL1889PLC000004 Ph: 011-41539170 Email Id: investors@dcm.in Website: www.dcm.in

#### NOTICE

Notice is hereby given that 131st Annual General Meeting ("AGM") of the members of DCM Ltd. (the "Company") is scheduled to be held on Tuesday, September 28, 2021 at 11.00 A.M. at through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business(s) as specified in AGM Notice thereof.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, September 22, 2021 to Tuesday, September 28, 2021 (both days inclusive) for the purpose of aforesaid AGM.

Notice of the 131st AGM along with the Annual Report 2020-21 was sent by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company Depositories

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), as amended from time to time, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL), on all resolutions proposed to be considered at the aforesaid AGM

Further, the facility for e-voting shall also be available at the AGM. The members who have already cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.

Mrs. Pragnya Parimita Pradhan, Company Secretary in whole-time practice, Proprietor Pragnya Pradhan & Associates, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and the e-voting at AGM in a fair and transparent manner.

All the members are hereby informed that:

the Ordinary Businesses and the Special Businesses as set out in the Notice of 131st AGM of the Company may be transacted through voting by electronic

The remote e-voting period commences on Saturday, September 25, 2021 (9.00

The remote e-voting period ends on Monday, September 27, 2021 (5:00 p.m. IST) cut-off date Tuesday, September 21, 2021

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e September 21,2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or contact NSDL at toll free no.: 1800-222-990. However if a member is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing user ID and password for casting his/her vote;

Participant (in respect of shares held in demat form) or with Mas Services Limited, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company (in respect of Members are hereby informed that the notice of the 30th AGM and the Annual Report of the Company are also available on the Company's website

remote e-voting shall not be allowed beyond Monday, September 27, 2021

B. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM of the Company and members attending the AGM who have not already casted their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM; a member may participate in the AGM even after exercising his right to vote

through remote e-voting but shall not be allowed to vote again; a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut- off date i.e.

September 21, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM; The Notice of 131st AGM of the Company is available on the Company's website

(www.dcm.in) and NSDL's website (www.evoting.nsdl.co.in) and viii. in case of queries, members may refer to the "Frequently Asked Questions (FAQs)

for members' and 'e-voting user manual for members' available at the Downloads Section of www.evoting.nsdl.co.in or contact Mr. Ajay Kumar Dalal, Sr. Manager /Mr. Amarjit, Sr. Manager, MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi -110020; Phone No. - 011-41406149, email: admin@mcsregistrars.com or contact NSDL at toll free no.: 1800-222-990, who will address the grievances connected with the electronic voting. The information contained in this notice shall also be available on the website of the

Company (www.dcm.in) and also on the website(s) of BSE limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) For DCM Limited

Place: Delhi Date: 03.09.2021

Sanjeev Kumar Company Secretary & Compliance Officer

# Date: 03.09.2021 बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

Company Secretary & Compliance Officer **POSSESSION** NOTICE (For immovable property)

Sumit Kumar Ghosh

For Jagsonpal Finance & Leasing Ltd.

Whereas the under signed being the Authorised Officer of Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notices, calling upon the following borrowers and guarantors to repay the amount mentioned in the notice, with interest compounded monthly rests within 60 days from the date of said notice

The borrower/mortgagors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the below mentioned borrowers/mortgagors and the public in general, that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 of the said rule on the dates as mentioned below. The borrower/guarantors/ mortgagors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the properties will be subject to the charge of Bank of Baroda for the amount/liability and interest and other expenses thereon due from the borrowers/mortgagors as mentioned here in below.

The Borrower's attention is invited to provision of sub section (8) of Section 13 of the act in respect of time available, to redeem the secured assets St. Name & Address of the Borrower & Guarantor

Branch-Madhuban Market Branch, Malikmau road near Madhuban Market, Raebareli-229001, Ph: 8601800092

Borrower: M/s Kamala Oil Mill, Prop. EM of one story Plot No. 8933 Total Area: 527 Sq.mtr. Mrs. Soni Kaushal W/o Mr. Balaji situated in Village Bahadurpur Dakhili, Jais, Pargana 22,03,257.00 Kaushal Add: Kasimpur Jais, Distt-Rokha, Tehsil Tiloi, Distt- Amethi. Owner: Mrs. Soni + interest and

Demand Notice: 17.01.2019 Possession Notice: 01.09.2021

Kaushal W/o Mr. Balaji Kaushal. Bounded by:- East: other Charges Kharanja Marg; West: Land of Md. Safi; North: Land of Habib; South: Land of Barnsraj and others.

Description of immovable/ movable property

Amount (Rs.)

01.03.2017

Date: 03/09/2021 Place: New Delhi

# FABINDIA OVERSEAS PRIVATE LIMITED

New Delhi-110048 | Ph : +91-11-46693725 E-mail: mailus@fabindia.net | Website: www.fabindia.com NOTICE OF THE 44TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM"

.imited (the 'Company') will be convened through Video Conferencing ('VC')/other audio visual means ('OAVM') in compliance with the applicable rovisions of the Companies Act, 2013 and the rules made there under, read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020 and 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars'). The 44th AGM of the Members of the Company is scheduled to be held at 3.30 p.m. (IST) on Thursday, September 30, 2021 through VC / OAVM facility to transact the businesses as set out in the Notice convening the

i.e. at https://www.fabindia.com. The members who are holding shares in physical form or who have not

through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting. Detailed procedure for remote e-voting before/during the AGM will be The Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 will be sent

Members who have not yet registered their email addresses are requested to contact Ms. Monika Uppal Arora, Company Secretary at monika uppai@fabindia.net and phone number +91-9313942073. By Order of the Board of Directors

> MONIKA UPPAL ARORA COMPANY SECRETARY

M.No. A-17485

CIN: U74899DL1976PTC008436 Registered Office: 14, N Block Market, Greater Kailash Part-I,

This is to inform that in view of the outbreak of the Covid-19 pandemic, the Annual General Meeting ('AGM'/'Meeting') of Fabindia Overseas Private

The Notice of AGM will also be available on the website of the Company

registered their email addresses with the company can also cast their votel

electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agents ('Registrar').

For FABINDIA OVERSEAS PRIVATE LIMITED

Place: Noida

Date: September 03, 2021

generate password as explain in e-voting instruction.

appointment of proxies by the Members will not be available.

New Delhi

Company Secretary ACS: 42944

**—FE BUREAU** 

Authorized Officer, Bank of Baroda

DCM

पंजी. कार्यालयः कार्यालय सं. एचएनओ-एमएन01, हब एण्ड ओक, ई-14, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली-110024

वेबसाइट : www.magnumventures.in; ई-मेल : magnumventures@gmail.com; दूरभाष : +91-11-42420015; CIN: L21093DL1980PLC010492 41वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा रिमोट

ई-वोटिंग जानकारी के लिये सुचना एतदुद्वारा सचित किया जाता है कि मैग्नम वेन्चर्स लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों की 41वीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम') शक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 को 12.30 बजे अप. में वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त वार्षिक साधारण सभा के आयोजन की सचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जो अभिलिखित तिथि अर्थात् 27 अगस्त, 2021 को शेयर धारित करते हैं। यह उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी(ज) के पास दर्ज है। शेयरधारकों के पास ई-मेल द्वारा सचना भेजने का कार्य 2 सितम्बर, 2021 को पूरा कर लिया गया है। उक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.magnumventures.in पर भी देखी जा सकती है।

यदि आपने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास दर्ज नहीं कराया है तो वित्त वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट एवं ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेत अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।

भौतिक धारिता : अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराने हेतु फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति (आगे तथा पीछे), पैन (स्वयं सत्यापित पैन कार्ड की स्कैन्ड प्रति), आधार (स्वयं सत्यापित आधार कार्ड की स्कैन्ड प्रति) उपलब्ध कराते हुए कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट मास सर्विसेज लिमिटेड के पास info@masserv.com पर निवेदन भेजें। यदि पहले से पंजीकृत न हों तो फोलियो नं. का उल्लेख करते हुए पत्र सहित मूल कैंसिल्ड चेक के साथ अपने बैंक का विवरण हमारे आरटीए ( अर्थात मास सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, दूसरा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-क्क्र, नई दिल्ली-110020)

डीमैट धारिता : कृपया अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से सम्पर्क करें और डीपी की सलाह के अनुसार प्रक्रिया का पालन करके अपना ई-मेल पता पंजीकृत करायें। कृपया कम्पनी द्वारा घोषित करने की स्थिति में एनएसीएच द्वारा लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना बैंक विवरण भी अपडेट करायें।

एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 18 सितम्बर, 2021 से 24 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

पुनः कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कम्पनी अपने सदस्यों को निष्पादित किये जाने वाले सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने के लिये नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उनके पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है सदस्यगण कपया निम्नलिखित का ध्यान रखें:

क) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा बृहस्पतिवार, 2021 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

ख) रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में मत-पत्र द्वारा मतदान के लिये सदस्यों की पात्रता सनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 17 सितम्बर, 2021 है।

ग) यदि कोई व्यक्ति सभा की सुचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् 17 सितम्बर, 2021 को शेयर धारित करते हैं, वे मै. एमएएस सर्विसेस लि., कम्पनी के आरएंडटी एजेन्ट से टी-34, 2रा तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020 में फोन नं.-011-26387281/82/83, फैक्सः 011-26387384, ई-मेल- info@masserv.com पर सम्पर्क कर यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

a) हालांकि यदि सदस्य रिमोट ई–वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत हैं वे अपना मतदान करने हेत अपने वर्तमान यजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

ङ) सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार मतदान करने के उपरान्त उसे बाद में परिवर्तित करने की अनुमित

च) एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी और जो सदस्य एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपन मतदान करते हैं वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं, किन्तु उन्हें एजीएम में दबारा मतदान करने की अनमति नहीं दी जायेगी।

छ) सदस्यगण एजीएम की सूचना में दी गई ई-वोटिंग के निर्देशों को देखें अथवा https://evotingindia.com देखें तथा ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की पृछताछ/शिकायत के लिये श्री मोहित कुमार गोयल कम्पनी सचिव, मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड से cs mvl@outlook.com अथवा श्री श्रवण मंगला, महाप्रबन्धक, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए से info@masserv.com पर सम्पर्क कर सकते हैं। ज) ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए संवीक्षक के रूप में सीएस विजय कुमार शर्मा (सदस्यता सं. F9924 तथा सीपी सं. 12387), साझेदार, मैसर्स मुनीश के. शर्मा एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव को नियुक्त किया

मैग्नम वेन्चर्स लिमिटेड के लिये

तिथि : 02.09.2021 स्थानः गाजियाबाद

प्रदीप कुमार जैन प्रबंध निदेशक, DIN: 00024879

#### रामसन्स प्रोजेक्टस लिमिटेड सीआईएन- L74899DL1994PLC063708

पंजीकृत कार्यालय : 815, 8वाँ तल, हेमकुन्ट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 दरभाष नं. : +91-0124-4679000

ई-मेल : rplcorprelations@sasgroup.in, वेबसाइट: www.ramsonsprojects.com 27वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि एजीएम की सुचना में निर्धारित व्यवसाय के लेन-देन के लिए कंपर्न अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के समस्त प्रावधाने तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित दिनांक 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (''सेबी'') (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में रैमसन्स् प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के सदस्यों की 27वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 27 सितंबर 2021 को दोपहर 12:00 बजे केवल टू वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') सुविधा/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे या https://www.linkintime.co.in पर लाइव वेबकास्ट देख सकेंगे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धार 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।

संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों के साथ 27 वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजा जाएगा जिनके ईमेल पते 27/08/2021 को कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागियों के पास पंजीकृत हैं। एजीएम के नोटिस की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.ramsonsprojects.com पर और स्टॉक् एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) की वेबसाइट https://www.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की रीति

समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वार जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ('एसएस- 2') और सेबी (सुचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों के लिए नीचे दिए गए ई-वोटिंग शेड्यूल के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध और खुली होगी तथा एजीएम में लेन-देन किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में एजीएम में वोटिंग के लिए इंस्टा पोल उपलब्ध कराया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और इंस्टा पोल के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए एलआईआईपीएल को नियुक्त किया है। कंपनी ने एलआईआईपीएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं को ग्रहण किया है।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सुचना में दिए गए हैं। सदस्यों से निम्नलिखित पर ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है:

(क) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी

रिमोट ई-वोटिंग प्रारम्भ होने की तिथि 24.09.2021 को 9.00 बजे पूर्वा. से

रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि 26.09.2021 को 5.00 बजे अप. इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्युल को एलआईआईपीएल द्वारा मतदान के लिए निष्क्रिय कर

दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की अनुमित नहीं दी जाएगी; एजीएम में ई-वोटिंग और वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के योग्य सदस्यों की पात्रता निर्धारण के उद्देश्य से कट-ऑफ तिथि 20.09.2020 है। (ख) बैठक के दौरान मतदान कराने के उद्देश्य से ई-वोटिंग यानी इंस्टा पोल सिस्टम की सुविधा भी

उपलब्ध कराई जाएगी और वीसी या ओएएएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें बैठक के दौरान अपने मताधिकार

(ग) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वही एजीएम से पहले/उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

(घ) कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद लेकिन कट–ऑफ तिथि से पहले कंपनी का सदस्य बन जाता है, वह enotices@linkintime.co.in अथवा corprelations@ramsonsprojects.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और

(ङ) बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से

बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन दुबारा मतदान के हकदार नहीं होंगे।

(च) यदि कंपनी के किसी सदस्य को बैठक के दौरान या इसके लिए ई-वोटिंग या वीसी/ओएवीएम सुविधा में लॉग इन या कनेक्ट करते समय किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वे समाधान प्राप्त करने के लिए एलआईआईपीएल को instameet@linkintime.co.in पर लिख सकते हैं या संपर्क करें : 022-49186175 या नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एनएच 2, एलएससी, सी -1, ब्लॉक सावित्री मार्केट के पास, जनकपूरी नई दिल्ली

ईमेल पतों को पंजीकृत करने और अपडेट करने का तरीका :

www.readwhere.com

corprelations@ramsonsprojects.com पर कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत/अपडेट कर सकते हैं। अनुरोध भेजते समय, सदस्यों से अनुरोध है कि वे विषय में 'अपडेट/रजिस्टर ईमेल आईडी - (डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें)' लिखें, और साथ ही कृपया पैन कार्ड की अपनी स्वयं प्रमाणित प्रति भेजें। शेयरधारकों/सदस्यों से अनुरोध है कि कंपनी/आरटीए को आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमित देने के लिए बही बंद होने से पहले अपना अनुरोध भेजें।

आगे यह भी सूचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की 27वीं एजीएम के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण पुस्तकें 21.09.2021 से 27.09.2021 (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे। बोर्ड के आदेशानुसार

कृते रामसन्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

स्थान : गुरुग्राम मेघा गोयल तिथि : 04.09.2021 कम्पनी सचिव

मिशका एक्जिम लिमिटेड CIN L51909DL2014PLC270810

पंजीकत कार्यालय: एफ-14, प्रथम मंजिल, क्रांस रीवर मॉल, सीबीडी ग्राऊन्ड, शाहदरा, दिल्ली - 110032. email: mishkaexim@gmail.com

सातवीं वार्षिक साधारण बैठक, ई-वोटिंग एवं किताबी बंदीकरण तिथि की सूचना एतदद्वारा सचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की सातवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम)

वीरवार 30 सितम्बर, 2021 को प्रातः 11:00 बजे ली सेफ, तीसरी मंजिल, क्रांस रीवर मॉल, सीबीडी ग्राऊन्ड, शाहदरा, दिल्ली- 110032 में सूचना में निहित व्यवसाय निष्पादन हेतू आयोजित एजीएम की सचना, वार्षिक रिपोर्ट, उपस्थिति पर्ची एवं प्राक्सी प्रपत्र उन सदस्यों को जिनके

ई-मेल पते कम्पनी अथवा डिपाटरीज प्रतिभागियों के पास अंकित थे, को इलेक्टानिक माध्यम द्वारा भेज दी गई हैं जबकि सदस्यों द्वारा उसी की एक हार्ड प्रतिलिपि के लिए आग्रह को पंजीकृत किया गया है। भौतिक प्रतियाँ उन सदस्यों, जिनके ई-मेल आईडीज कम्पनी अथवा डिपाटरीज भागीदार के पास अंकित नहीं थे, को भेज दी गई हैं। वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि साथ में कम्पनी की वेबसाइट i.e. mishkaexim.com पर भी अंकित की जा रही है। कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं साथ में पठित सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं

प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन, 2015 के क्लॉज 42 के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की पंजिका एवं शेयर हस्तांतरण किताबें 24 सितम्बर, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक (दोनों दिवस शामिल कर) बंद रहेंगी। कम्पनी अपने सदस्यों को सातवीं एजीएम की सूचना में प्रस्तृत सभी संकल्पों पर उनके द्वारा

इलेक्ट्रानिक माध्यम (ई-वोटिंग) से वोटिंग की स्विधा प्रदान करा रही है। उपरोक्त अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसरण में विवरण निम्नानुसार दिये गये हैं

क) सूचना को भेजने का कार्य शनिवार, 4 सितम्बर, 2021 को पूर्ण कर लिया गया है। ख) वोटिंग का समय 27 सितम्बर, 2021 को प्रातः 09:00 बजे से प्रारम्भ होकर 29 सितम्बर 2021 को सायं 05:00 बजे समाप्त होगा। कट-ऑफ तिथि (रिकार्ड तिथि) i.e. 23

के शेयरधारित शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रानिकली दे सकते हैं। यदि किसी सदस्य को ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न अथवा समस्या है, तो कृपया helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सम्पर्क कर सकते हैं। किसी भी कठिनाइयों के लिए

सितम्बर, 2021 को इस समयाअवधि में भौतिक अथवा डिमैटीरियलाइज्ड प्रपत्र में कम्पनी

सचिवालय विभाग से पत्र अथवा mishkaexim@amail.com के ई-मेल पर सम्पर्क कर सकते

कृते मिशका एक्जिम लिमिटेड

रजनीश गुप्ता प्रबन्ध निदेशक

रता इलेक्ट्रॉनिकी से कहीं अधिक

तिथि: 03.09.2021

स्थान : दिल्ली

भारत इलेक्टॉनिक्स लिमिटेड

67वीं वार्षिक आम बैठक, ई-मतदान और पुस्त-बंदी की सूचना

एतहवारा सचना दी जाती है कि भारत इलेक्टोंनिक्स लिमिटेड की 67वीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 को सुबह 10-00 बजे (आई.एस.टी.) आयोजित

कोविड-19 की मीज़दा महामारी को ध्यान में रखते हुए, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, जिसे सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 और 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और भारतीय प्रतिभृति एवं एक्सचेंज बोर्ड ('सेबी') के परिषत्र सं. सेबी/ एवओ/ सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 (जिन्हें यहाँ इसके बाद संयक्त रूप से "परिपत्र" कहा गया है) के साथ पढ़ा जाना है, द्वारा वीडियो कॉनफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम (ओएवीएम) से किसी सामान्य स्थल पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थित के बिना सामान्य वार्षिक बैठक ("एजीएम" आयोजित करने की अनुमति दी गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (सुचीकरण की बाध्यताएं एवं प्रकटण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सुचीकरण विनियम", और परिपत्रों में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम आहुत करने की सूचना ("नोटिस"; में निर्धारित कारोबार करने के लिए कंपनी की एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम आहत करने की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के ऐसे सभी सदस्यों को 3 सितंबर, 2021 को भेजी गई है जिनके ई-मेल एडेस डिपाजिटरी प्रतिभागी ("डी.पी.") / कंपनी के पंजीयक एवं अंतरण एजेंट यानी इंटीग्रेटेड रजिस्टी मैनेजमेंस सर्विसेस प्रा. लि. ("आर.टी.ए.") के पास पंजीकृत हैं। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट पर निवेशक खंड के तहत और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, यह स्चना सेंट्र डिपाज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्य एजीएम के शरु होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और एजीएम के दौरान लॉगिन के विवरण का उपयोग करते हुए और कंपनी के लिए ईवीएसएन चुनते हुए सदस्य वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 91 जिसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 और सूचीकरण विनियमों के विनियम 42 के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में यह सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बही 67वीं एजीएम तथा विनीय वर्ष 2020-21 के अंतिम लाभांश के भूगतान के प्रयोजनार्थ गुरुवार, 16 सिवंबर, 2021 से रविवार, 19 सितंबर, 2021 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रखें जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 का अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, घोषणा के 30 दिनों की सांविधिक अवधि के भीतर शेयरों को भीतिक रूप में धारित करने वाले ऐसे सदस्यों को अदा किया जाएगा जिनक नाम 15 सिर्वबर, 2021 को कंपनी के सदस्यों की पंजी में दर्ज हैं। बहरहाल, डिमटीरियलीकत रूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश ऐसे सदस्यों को देय होगा जिनके नाम डिपोजिटरियों द्वारा प्रस्तृत विवरणों के अनुसार, 15 सितंबर, 2021 के कारोबारी घंटों की समाप्ति घर, हितलाभी स्वामियों के रूप में दर्शित होते हैं।

अधिनियम की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वार जारी आम बैठकों के सचिवीय मानक (एसएस-2) और सुचीकरण विनियमों के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम में व्यवहरित कारोबार के संबंध में सुदूर ई-मतदान की सुवधा सीडीएसएल के माध्यम से कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही है। कंपनी द्वारा सीडीएसएल के माध्यम से रिमोट ई-मतदान की सुविधा प्रदान करने की आवश्यक व्यवस्था की गई है। रिमोट ई-मतदान और एजीएम के दौरान ई-मतदान की विस्तृत प्रक्रिया और अनुदेश इस सूचना में उल्लिखित है। सभी सदस्यों को एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि -

.रिमोट ई-मतदान या एजीएम में ई-मतदान द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने की पात्रता तय करने की निर्दिष्ट तारीख मंगलवार, 21 सितंबर, 2021 है। सभी सदस्यों के लिए, चाहे वे शेयरों को भौतिक रूप में घारित करते हों या डिमटीरियलीकृत रूप में घारित करते हों, रिमोट ई-मतदान शुक्रवार, 24 सितंबर 2021 को सुबह 09-00 बजे (आई.एस.टी.) से शुरु करते हुए सोमवार, 27 सितंबर 2021 को शाम 05-00 बजे (आई.एस.टी.) तक, 4 दिनों की अविध के लिए खुला रहेगा। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-मतदान मॉड्स्ल निकिय कर दिया जाएगा। रिमोट ई-मतदान उक्त तारीख और समय के बाद अनुमत नहीं होगा। सदस्यों द्वारा संकल्प पर मताधिकार का प्रयोग करने के बाद, सदस्यों को बाद में उसे बदलने की

 डीमैंट रूप में, भौतिक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्यों द्वारा और ऐसे सदस्यों के लिए जिन्होंने आपने ई-मेल एडेस पंजीकत नहीं कराया है, एजीएम में रिमोट ई-मतदान और मतदान द्वारा मतदान करने की विधि एजीएम की सचना में दी गई है।

 जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का त्रयोग कर लिया है, वे वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं / भाग ले सकते हैं लेकिन वे दोवारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के हकदार नहीं होंगे।

4. कोई व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सुचना प्रेषित करने के बाद कंपनी का शेयरधारक बनता है और निर्दिष्ट तारीख को शेयर धारित करता है, वह एजीएम की सूचना में उल्लिखित संकल्पों पर मतदान करने के लिए अन्देशों का पालन कर सकता

 जो सदस्य वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होते हैं और जिन्होंने रिमोट ई-मतदान द्वारा संकल्पों पर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, वे एजीएम में ई-मतदान द्वारा मतदान करने के पात्र होंगे। एजीएम में ई-मतदान करने की विस्तृत प्रक्रिया और अनुदेश सूचना में उल्लिखित हैं।

 जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई-मेल एडेस का पंजीकरण नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि डिमटीरियलीकृत रूप में धारित शेयरों के मामले में अपने डी.पी. के पास उनका पंजीकरण कराएं और भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में कंपनी / आरटीए के पास उनका पंजीकरण कराएं। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल एड्रेस डीपी / कंपनी/आरटीए के पास दर्ज नहीं कराया है, वे लिंक https://www.integratedindia.in/emailupdation.aspx पर क्लिक करते हुए सुचना, वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 और ई-मतदान के अनुदेश प्राप्त करने के लिए कंपनी के आरटीए में, इंटीग्रेटेड रजिस्टी मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. के पास अपने ई-मेल एडेस और मोबाइल नंबर दर्ज करा सकते हैं।

कोई जिज्ञासा हो तो ये www.evotingindia.com में मदद खंड के तहत उपलब्ध अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न ("एफ.ए.क्यू") या ई-मतदान मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं अथवा श्री निविन कुंडेर (022-23058738) या श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से संपर्क कर सकते हैं। कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

यदि सदस्यों को एजीएम और ई-मतदान में शामिल होने के संबंध में कोई प्रश्न पूछना हो या

4 सितंबर, 2021

बेंगलुरु-

'हर काम देश के नाम'

एस. श्रीनिवास

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 03 सितम्बर, 2021

स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L20211CH1991PLC011732 पंजी. कार्यालयः एससीओ-14. सेक्टर 7-सी. मध्य मार्ग. चंडीगढ-160019

> 30वीं वार्षिक आम सभा, रिमोट ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने के विषय में सूचना

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 30वीं वार्षिक आम सभा गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 के सिप 'एन' डाइन, एससीओ-16 ए, मध्यमार्ग, सेक्टर ७-सी, चंडीगढ में १०.०० बजे पर्वा, मे आयोजित होगी जिसमें सभा की सचना में निर्दिष्ट निम्न व्यवसाय को निष्पादित किया जायेगा

2. एजीएम की सचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा उपस्थित पर्ची इलेक्टानिक पद्धति से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कम्पनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास पंजीकत हैं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। 3. कट-ऑफ तिथि (23 सितम्बर, 2021) को भौतिक पद्धति या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर

धारित करने वाले सदस्य लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

एजीएम की सचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्टानिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पदित किया

रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 को 10.00 बजे पूर्वा. से शुरू होगी तथा बधवार, 29 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी।

एजीएम में इलेक्टॉनिक माध्यमों से मतदान की पात्रता सनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2021 है। 29 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों

द्वारा ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति सचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे https://instavote.linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।लेकिन, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिये एलआईआईपीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो अपना मतदान करने के लिये वर्तमान यूजर आईडी

एवं पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं: सदस्यगण ध्यान रखें किः क) 29 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. के बाद रिमोट वोटिंग पद्धति एलआईआईपीएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा ख) किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमित नहीं दी जायेगी; ग) एजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी; घ) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे; ड.) केवल ऐसे वयक्ति जिनके नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे, केवल वे हीं रिमोट

ई-वोटिंग अथवा एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे 4. सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 से गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सिहत) तक बंद रहेंगे।

स्टाइलम इंडस्टीज लिमिटेड के लिये

स्थानः चंडीगढ तिथि: 28 जुलाई, 2021

जगदीश गुप्ता प्रबंध निदेशक

जेआईटीएफ इन्फ्रालॉजिस्टिस लिमिटेड सीआईएन - L60231UP2008PLC069245

पंजीकृत कार्यालयः ए-1, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, नंदगांव रोड कोसी कलां, जिला मथुरा (उ. प्र.) 281403

वेबसाइटः www.jindalinfralogistics.com, ई—मेलः contactus@jindalinfralogistics.com 14वीं वार्षिक आम बैठक के लिए सूचना

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि कंपनी की 14वीं वार्षिक आम बैठक बधवार. 29 सितम्बर, 2021 के दोपहर 01.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, ए-1 युपीएसआईडीसी इंडस्टियल एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा — 281403 (उ.प्र.) में कथित वार्षिक आम बैठक में दी गई सूचना के कार्यों के निष्पादन हेत आयोजित की जाएगी।

एमसीए सर्कुलर और सेबी सर्कुलर दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन्ही सदस्यों को इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। जो सदस्य पंजीकृत नहीं हैं, वे ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 कम्पनी की वेबसाइट www.jindalinfralogistics.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी क्रमश उपलद्ध होगी। कट ऑफ तिथि दिनांक 27 अगस्त, 2021 को शेयर रखने वाले सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 के साथ नोटिस भेजा जा रहा हैं।

एतदद्वारा यह भी सचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी के विनियम 42 (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताए) विनियम 2015 के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां 23 सितम्बर, 2021 से 29 सितम्बर, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पिठत कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 व नियम 20 और सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताएं) 2015 के विनियम 44 वे अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को दूरस्थ ई – वोटिंग की सुविधा प्रदान करती है जिससे व कंपनी की 14वीं वार्षिक आम बैठक में पारित संकल्पों पर अपने वोट इलेक्टॉनिक विधि से दे सकें। सदस्य कृपया निम्नलिखित नोट करें :

क. दूरस्थ ई—वोटिंग रविवार, 26 सितम्बर, 2021 को सुबह 9.00 बजे आरंभ होगी और मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी।

ख. दूरस्थ ई—वोटिंग मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को शाम 5.00 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होगी। ग. दुरस्थ ई—वोटिंग और मतदान के लिए वोटिंग हेतु सदस्यों की पात्रता के निर्धारण की कट ऑफ तिथि 22 सितम्बर, 2021 है।

घ. कोई व्यक्ति जो बैठक की सचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और उसके पास कट आफॅ तिथि 22 सितम्बर, 2021 को शये रधारिता है तो वे आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्र.) लि. कंपनी के आर एण्ड टी एजेंट बी-25/1, ओखला इंडस्टियल एरिया, फेज 2, नई दिल्ली—110020, फोन 011—26387320—23, फैक्सः 011—26387322, ई—मेल evoting.services@rcmcdelhi.com से संपर्क द्वारा अपने युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त

ड. दरस्थ ई—वोटिंग द्वारा वोट देने वाले सभी सदस्य वार्षिक आम बैठक में भाग भी ले सकते हैं। किंतु उन्हें वार्षिक आम बैठक में अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

त्र. मतदान के माध्यम से वोटिंग की सविधा वार्षिक आम बैठक में केवल उन सदस्यों के लिए होगी जिन्हानें दुरस्थ ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट नही दिया है।

छ. सदस्य वार्षिक आमसभा की सूचना में बताए गए ई–वोटिंग के अनुदेश पढ़ें https://evoting.nsdl.com देखें और किसी पूछताछ के लिए आप सदस्यों के लिए बार बार पुछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं और https://evoting.nsdl.com डाउनलोड सेक्शन में सदस्यों के लिए ई-वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल उपलब्ध है।

जेआईटीएफ इन्फ्रालॉजिस्टिस लिमिटेड के लिए

स्थानः नई दिल्ली तिथि : 03 सितंबर, 2021

आलोक कुमा कम्पनी सचिव सीएस\_19819

बी.सी. पॉवर कंट्रोल्स लिमिटेड

( सीआईएन : L31300DL2008PLC179414 ) पंजीकृत कार्यालय : 7A/39, डब्ल्यूईए चन्ना मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

ई-मेल : infb@bonlongroup.com, वेबसाइट : www.bcpowercontrols.com दूरभाष : 01147532795, फैक्स : 01147532798

सचना-13वीं वार्षिक आम बैठक

यह सुचित किया जाता है कि, एंजीएम की सुचना जिसे उचित समय पर भेजा जायेगा, में निर्धारित व्यवसार के लेन-देन के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र 14/2020, 17/2020, 20/2020 औ 02/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल 2020,13 अप्रैल, 2020, 5 मई , 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत निर्मित नियमों के प्रयोज्य प्रावधानों और सेबी द्वारा जार्र परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CIR/P/2020/79 तथा SEBI/HO/CFD/CMD2/CIF /P/2021/11 क्रमशः दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन में बी.सी. पावर कंट्रोल्स लिमिटेड (''कंपनी'') की 13वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 के दोपहर 01:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जायेगी।।

सदस्य ध्यान दें कि, जारी कोविड-19 महामारी को देखते हुए, उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी और सरकार की गो-ग्रीन पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 13वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट / रजिस्टार और अन्तरण एजेंट (''आरटीए'') के साथ पंजीकृत हैं। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भार लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से की जाएगी। कंपनी अपने सभी सदस्यों को पहले की प्रथाओं के समान ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रर्ह है। कंपनी की वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 13वीएजीएम की सचना की ई-कॉपी कंपर्न की वेबसाइट www.bcpowercontrols.com पर बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उचित समय पर उपलब्ध होगी।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश 13वीं एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे। तदनुसार, कृपया ध्यान दें वि कोविड-19 महामारी के संबंध में सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की एजीएम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित और भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नीचे बताए अनुसार पंजीकरण की प्रक्रिया का पालन करें:

भौतिक कंपनी की 100% शेयरहोल्डिंग डी-मैट फॉर्म में है, इसलिए यह प्रावधान कंपनी पर लाग नहीं है धारिता

डीमैट कपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिय धारिता के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें या कंपनी के आरटीए बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ लिंक www.bigshareonline.com/Forlnvestor.aspx पर क्लिक कर-के अस्थायी रूप से पंजीकृत करें।

कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर एनएसीएच द्वारा लाभांश भुगतान के लिए कृपया अपने डीपी के साथ अपने बैंक विवरण को भी अपडेट करें। सदस्य यह भी नोट करें कि यदि आपकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत ह

तो रिमोट ई-वोटिंग/ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल पंजीकृत ई-मेल पते पर 13र्व

एजीएम की सचना के साथ भेजे जाएंगे। हालांकि, जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल-आईडी पंजीकृत नहीं की है, वे ऊपर उल्लिखित ई-मेल आईडी पंजीकृत करने की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। सदस्य ध्यान कि रिमोट ई-वोटिंग/ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का भी एजीएम की सूचना में उल्लेख

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए सर्कलर और सेबी सर्कलर के अनपालन में है।

कृते बी.सी. पॉवर कंट्रोल्स लिमिटेड

राजबीर शर्मा (कम्पनी सचिव)

MOTHERSONSUMI INFOTECH & DESIGNS LIMITED CIN: U67120DL1985PLC020695

**Regd. Office:** 2<sup>nd</sup> Floor, F-7, Block B-1, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, Delhi – 110044

**Tel No.** +91-120-4365555, **E-mail**: info@mind-infotech.com

NOTICE OF 36" ANNUAL GENERAL MEETING

In view of Covid-19 Pandemic and pursuant to the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 read with General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020. General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), the 36<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, September 29, 2021 at 1.30 p.m. through Video Conferencing (VC) in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Applicable circulars to transact the business as set out in the notice of AGM.

Pursuant to the Applicable Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual

Report shall be sent to all members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) through email facility. These documents will be available on the website of the Company. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC facility only. For receiving all communication (including Annual Report) from the Company

electronically: a) Members holding shares in physical mode and who have not registered

updated their email address with the Company are requested to register / update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card to MCS Share Transfer Agent Limited at admin@mcsregistrars.com.

b) Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participant.

The 36<sup>th</sup> AGM notice will be sent to the shareholders in accordance with the applicable

laws on their registered e-mail addresses in due course.

**BRILLIANT PORTFOLIOS LIMITED** Repd. Off: B-09, 412, ITL Twin Tower, Netaii Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110088 Ph. No.: 011-45058963, CIN: L74899DL1994PLC057507

Email ID: brilliantportfolios@gmail.com, Website: www.brilliantportfolios.com NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING. BOOK CLOSURE AND INFORMATION ON REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of Brilliant Portfolios Limited

set out in the Notice of AGM The Company has sent the Notice of 27th AGM and Annual Report, including the Audited Financial Statements for the financial year 2020-21, on September 03, 2021 through electronic node to the Shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company or with the Registrar and Share Transfer Agent or with the Depository Participants in accordance with the General Circulars Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and 13th January, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and in compliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI Listing Regulations"). The copy of AGM

The Company is pleased to provide remote e-voting facility ("remote e-voting") of NSDL to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company shall also provide the facility of e-voting during the AGM. Detailed procedure for remote -voting before the AGM/e-voting during the AGM is provided in the AGM Notice. The documen pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be available for inspection at www.brilliantportfolios.com

Instructions for remote E-Voting and E-Voting:

Date: September 4, 2021

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations. the Company is pleased to provide e-voting facilities through NSDL to its Shareholders, in respect of the businesses to be transacted at the AGM. The manner and instructions to cast votes through remote e-voting as well as e-voting during the proceedings of the AGM have

Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e., Sunday, 19th September, 2021, shall be entitled to avail the e-voting facility, Once vote(s) on Resolution(s) set out in the Notice are cast by any Shareholder, the same cannot be changed subsequently. The remote e-voting will commence on Thursday, 23rd September, 2021 at 9.00 a.m. and end on Saturday, 25th September, 2021 at 5.00 p.m. Aperson who is not a Shareholder as on the cut-off date, i.e., Sunday, 19th September, 2021 should treat the Notice for information

remote e-voting, shall be eligible to exercise their voting rights during the proceedings of the AGM. Shareholders who have exercised their voting rights through remote e-voting shall also be eligible to participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again during the proceedings of the AGM. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Managemen

at the Annual General Meeting.

felpdesk details for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical ssues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL, is provided below:

ndividual Shareholders Members facing any technical issue in login can contact NSDI olding securities in demat helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at to

free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 ndividual Shareholders Members facing any technical issue in login can contact CDSI olding securities in demat helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com

For Brilliant Portfolios Limited

Company Secretary and Compliance Office

अरावली सिक्योरिटीज

node with CDSL

Date : 03.09.2021

एण्ड फाइनेंस लिमिटेड

सेक्टर 44, गुरुग्राम-122003

दूरभाष नं.: +91-124-4556677, सीआईएन: L67120HR1980PLCO39125 वेबसाइटः www.aravalisecurities.com | ई-मेलः info@aravalisecurities.com

41वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर तथा

रिमोट ई-वोटिंग सूचना की सूचना एतद्वारा सचना दी जाती है कि एजीएम की सचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए अरावर्ल

(वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 को 11.00 बजे पूर्वा. आयोजित की जायेगी। कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन तथा अनुपालनीय सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट कार्यालय मन्त्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020. सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र 20/2020 दिनांक 5 मई. 2020 एवं समय पर जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के माध्यम में एजीएम स्थल पर सदस्यो की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है और सामान्य बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जानी है। अतः सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में उपस्थित और भाग ले सकते हैं। प्रयोज्य परिपत्रों तथा भौतिक प्रतियाँ भेजने में होने वाली कठिनाइयों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट तथा 41वीं एजीएम की सूचन उन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/ डिपॉजिटरी भागीदा के साथ पंजीकृत हैं। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक आम बैठक की सचना कम्पनी की वेबसाइट www.aravalisecurities.com पर सदस्यों द्वारा डाउनलोड करने हेत्

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 तथ सचीबद्धता अनुबन्ध के उपबन्ध 16 के अनुसार एतद्वारा सुचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथ कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों की शेयर अन्तरण पुस्तिका शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 से बृहस्पतिवार 30 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस शामिल) तक वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का रिकार्ड लेने के

सूचीबद्धता अनुबन्ध के उपबन्ध 35बी के अनुपालन में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक

रूप से अपना मतदान करने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एलएसडीएल) के माध्यम से उनके पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोर्ट ई-वोटिंग अवधि सोमावार, 27 सितम्बर, 2021 (9.00 बजे प्रात) प्रारम्भ होगी और बुधवार, 29 सितम्बर 2021 (5.00 बजे अप.) समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के उपरान्त ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस अवधि के दौरान कम्पनी के सदस्य जो कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2021 तक भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करते हैं वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और इस सूचना के निर्गमन के पश्चात कम्पनी का सदस्य बन जात है और कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2021 तक कम्पनी के शेयर धारण करता है, उसे कट-ऑफ तिथि के पश्चात मेल के माध्यम से यह सूचना उपलब्ध कराई जायेगी और ऐसे सदस्य evoting@nsdl.co.in या आरटीए, स्काइलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड भी प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह मतदान के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथ पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। इसके पश्चात एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा। जो सदस्य वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से 30 सितम्बर, 2021 को बैठक में भाग ले रहे हैं वे एजीएम की सचना दिनांक 12 अगस्त, 2021 को सूचना में निर्दिष्ट प्रकार्य पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैठक के दौरान एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई-वोटिंग) के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। किन्त, केवल वे ही सदस्य/शेयरधारक जी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है और उन्हें अन्यथा ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया है वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प मतदान के पात्र होंगे।

https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड के तहत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (''एफएक्यू'') तथा सदस्यों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथव एनएसडीएल से टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

हाउस, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122003, हरियाणा, दूरभाषः +91-124-4556677 फैक्स : +91-124-4556677, ई-मेलः companysecretary@aravalisecurities.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कते अरावली सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस लिमिटेड

रुचि श्रीवास्तव स्थानः गुरुग्राम तिथि: 12.08.2021 कम्पनी सचिव

For MothersonSumi Infotech & Designs Limited

Pooja Mehra Company Secretary FCS-5088

("the Company") is scheduled to be held on Sunday, 26th September, 2021 at 11:30 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") to transact the businesses as

Notice and the Annual Report are also available on the website of the Company viz. www.brilliantportfolios.com and on the website of the Stock Exchange viz www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The Shareholders whose names appear in the Register of Members or in the Register of

Shareholders participating in the AGM through VC/OAVM and who have not cast their votes by

& Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, the September 20, 2021 to Sunday September 26, 2021 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders

or contact at 022-23058738 or 022-23058542-43

पंजीकृत कार्यालयः राइडर हाउस, चौथा तल, प्लॉट सं. 136,

सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस लिमिटेड के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग

उददेश्य से बन्द रहेंगी। कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एव

यदि उपर्युक्त प्रारूप के किसी मतदान से सम्बन्धित कोई पूछताछ या परेशानी है तो आप

रिमोट ई-वोटिंग हेतु विस्तृत सूचना प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रावधानित है। रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धित कोई पूछताछ/ शिकायत सुश्री रुचि श्रीवास्तव, कम्पनी सचिव, प्लॉट नं. 136, चौथा तल, राइडर

बोर्ड के आदेशानुसार